



# द अचीवर टाइम्स

डाक पंजीयन संख्या  
एस.एस.पी.एल.डब्ल्यू/एन  
पी.439/2015-2017

वर्ष : 9 अंक : 211  
पृष्ठ : 8 मूल्य : ३ रुपये

लखनऊ, शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2023

## एक नज़र ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान बेताब

इस्लामाबाद। ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए पाकिस्तान बेताब दिख रहा है। पाकिस्तान में गुरुवार को ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। बता दें वर्तमान में ब्राजील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। ये सभी देश रूस में होने वाली 2024 के शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे।

### पाकिस्तान का दावा, हम वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुताज जहरा बलूच ने कहा, हमने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है क्योंकि यह विकासशील देशों का एक बड़ा समूह है। पाकिस्तान ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है। उन्होंने कहा, वैश्विक शांति और विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, यदि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, समावेशी विकास को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली ने कहा, 2024 में ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए हमने आवेदन किया है, हमें विश्वास है कि सदस्यता प्रक्रिया में मॉस्को हमारी मदद करेगा। हम रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स में शामिल होने की योजना बना रहे हैं।

### गोलियों से छलनी मिला भारतीय छत्र का शव

वाशिंगटन। अमेरिका को ओहियो से एक बुरी खबर सामने आई है। जहां एक भारतीय छत्र की गोली मार हत्या कर दी, छत्र का शव कार से बरामद किया गया। जिसके बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना को मेडिकल विश्वविद्यालय ने दुखद करार दिया। बता दें मुक्त आदित्य सिनसिनाटी मेडिकल विश्वविद्यालय में आणविक, विकासात्मक जीव विज्ञान विषय का चौथे वर्ष का छात्र था। हैमिल्टन काउंटी कोरोनर कार्यालय के मुताबिक, आदित्य की इस माह के शुरुआत में मौत हो गई थी।

# सीएम धामी ने सुरंग में फंसे श्रमिकों से की बात, बढ़ाया हौसला

## उम्मीद में बीता 12वां दिन सूरज चढ़ता गया, इंतजार बढ़ता गया

एजेंसी देहरादून। सीएम ने अंदर फंसे श्रमिक गबर सिंह से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। बताया कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बाहर लाने के लिए यहां पूरी टीम कोशिश कर रही है।



दिवाली के दिन उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान का जायजा लेने आज सिलक्यारा पहुंचे। उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। उन्होंने

### प्राथमिकता सुरंग में फंसे श्रमिक भाइयों को निकालना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस समय मेरी चिंता सुरंग में फंसे हुए उन श्रमिक भाइयों को लेकर है, जिनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विश्व स्तरीय तकनीकी के प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्द हम इस ऑपरेशन को पूरा करने में सफल होंगे। वह क्षण हमारे लिए वास्तविक इगास का होगा। हम सभी प्रदेशवासियों की कामना है कि हम सब उनका मनोबल बढ़ाएं और प्रार्थना करें कि बचाव ऑपरेशन जल्द सफलतापूर्वक पूर्ण हो। उन्होंने प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी।

## रामायण-महाभारत के साथ कुरान और बाइबिल भी पाठ्यक्रम में शामिल करें खालिद रशीद फरंगी महल



### एजेंसी

लखनऊ। रामायण-महाभारत को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के ग्रंथों को शामिल किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि हम सभी धर्मों और धार्मिक लोगों का सम्मान करते हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण-

महाभारत के साथ ही बाइबिल और कुरान भी शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की जगह सभी को बराबर का स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी जो पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि सभी धार्मिक ग्रंथ शामिल किए जाने चाहिए। बीते दिनों एनसीईआरटी के एक उच्च स्तरीय पैनेल ने सिफारिश की थी कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों और कक्षा की दीवारों पर लिखी गई संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बाहर लाने के लिए यहां पूरी टीम कोशिश कर रही है। सीएम ने श्रमिकों के स्वास्थ्य का हाल पूछते हुए कहा कि बस अब कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें। किसी भी तरह की चिंता न करें।

### बाबा बौखनाग से की प्रार्थना

इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बौखनाग देवता से सभी श्रमिकों की कुशलता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन और रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों के

### मातली में अस्थायी सीएम कैंप कार्यालय बनाया

उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन को की मॉनिटरिंग के लिए मातली में मुख्यमंत्री का अस्थायी कैंप कार्यालय खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी वहां कैंप कर रहे हैं। इस बीच संस्कृति विभाग का मुख्यमंत्री आवास में बृहस्पतिवार की शाम को होने वाले इगास कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए वास्तविक इगास का क्षण तब होगा, जब सभी 41 मजदूर सुरंग से सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। उनके निर्देश पर ही मातली में अस्थायी रूप से कैंप कार्यालय बनाया गया। बताया गया कि इससे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी कार्य भी चलता रहे और ऑपरेशन की नजदीक से मॉनिटरिंग होती रहेगी। मुख्यमंत्री बुधवार शाम से उत्तरकाशी में हैं। सुबह मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा पहुंचकर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और यहां मौजूद विशेषज्ञों के साथ भी उन्होंने मंत्रणा की।

अथक प्रयास से जल्द सभी मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे।

### सुरंग पर लगी रहीं निगाहें

उत्तरकाशी। सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का उल्साह बृहस्पतिवार की दिनभर उतार चढ़ाव लेता रहा। सूरज चढ़ता गया और अड़चनों की वजह से मजदूरों के बाहर आने का इंतजार बढ़ता रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम तक ऑपरेशन सिलक्यारा के सफल होने का इंतजार कर रहे थे। बुधवार की रात को चले अभियान की रफ्तार से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि

## दिल्ली-एनसीआर में अब भी जहरीली हवा में सांस ले रहे लोग

### एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 390 दर्ज किया गया। वहीं मौसमी बदलाव से दिल्ली-एनसीआर का पारा लगातार गिर रहा है। गुरुवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। राजधानी में हवा की गति कम होने से आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह से ही आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। इससे धूप अच्छे से नहीं खिली। बृहस्पतिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 390 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी है। हालांकि, यह बुधवार के मुकाबले पांच सूचकांक कम रहा। दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई एनसीआर में फरीदाबाद का एक्यूआई सर्वाधिक दर्ज किया गया। कर्मोवेश यही स्थिति रविवार तक बने रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों ने बताया कि हवा में नमी कम होने से प्रदूषण कण संतन हो रहे हैं जिससे वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आगे स्थिति और खराब हो सकती है।



### दिल्ली के 15 इलाकों की हवा खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली में बृहस्पतिवार को 15 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें बवाना में 444, जहांगीरपुरी में 434, वजीरपुर में 431, नेहरू नगर में 428, पंजाबी बाग में 425 व अलीपुर में 423 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, 21 इलाकों में बेहद खराब हवा दर्ज की गई। मंदिर मार्ग में सर्वाधिक 396 एक्यूआई दर्ज किया गया। साथ ही, आनंद विहार व अशोक विहार में 395, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 393, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल में 391, सिरी फोर्ट व जेएलएन में 392 व डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज

में 390 समेत 21 इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया।

### रविवार तक बेहद खराब श्रेणी में रहेगी हवा

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मुताबिक, बृहस्पतिवार को हवा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर से चली। इस दौरान हवा की गति छह से चार से आठ किलोमीटर प्रतिघंटे रही। शुक्रवार को हवा उत्तर-पूर्व से पूर्व चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति चार किलोमीटर प्रतिघंटे रहने के आसार हैं। वहीं, सुबह के समय धुंध व कोहरा छाने की आशांका है। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी।

### जान पर खेलकर पाइप में 45 मीटर तक घुसे प्रवीन और बलविंदर

उत्तरकाशी। लगातार 12 दिन से चल रहे ऑपरेशन सिलक्यारा में आई एक बड़ी अड़चन को जान पर खेलकर दूर करने वाले टूचलेस कंपनी के दो एक्सपर्ट प्रवीन और बलविंदर हीरो बन गए। दोनों ने 45 मीटर से अधिक भीतर पाइप में घुसकर करीब दो घंटे में सभी सरियों को काटा डाला। सचिव डॉ. नीरज खैरवाल ने बताया कि बुधवार देर रात ड्रिल मशीन के सामने लोहे की रॉड और गाटर आ गए थे। पहले एनडीआरएफ के जवानों ने भीतर घुसकर देखा। इसके बाद एक टीम इसे काटने के लिए भीतर गई लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर दूसरी टीम भीतर गई जो असफल रही। डॉ. खैरवाल ने बताया कि इसके बाद अभियान में शामिल टूचलेस कंपनी के दो एक्सपर्ट प्रवीन और बलविंदर बुलाए गए। इन दोनों ने मिलकर लोहे को गैस कटर से काटने का काम किया। 800 मिमी के पाइप में 45 मीटर से अधिक अंदर जाने पर ऑक्सीजन पहले ही कम हो जाती है।

बृहस्पतिवार की सुबह तक सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे, लेकिन रात को अमेरिकन और ड्रिल मशीन की राह में लोहे के सरिये व गाटर आ गए जो टनल के भीतर के स्ट्रक्टर के लिए लगाए गए थे। इससे मशीन का पुर्जा भी टूट गया। मशीन रोकनी पड़ी। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान ने करीब 40 मीटर तक पहुंचे 800 मिमी पाइप के भीतर घुसकर रुकावट को देखा। उन्होंने इसे काटने की सलाह दी, जिसके लिए गैस कटर मंगाया गया। भीतर ऑक्सीजन कम होती है। गैस कटर चलाने पर ये और कम हो जाती है। लिहाजा, पहली टीम जब इसे काटने के लिए पहुंची तो वह सफल नहीं हो पाई।

## सपा, बसपा और कांग्रेस में संघ लगाने की तैयारी में भाजपा




### एजेंसी

लखनऊ। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान चलाया था। पार्टी को इसमें बड़ी सफलता मिली थी। विपक्षी दलों के नेताओं को चुनाव में मौका दिया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में मंत्री भी बनाया गया। अब लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा फिर उस प्रयोग को दोहराने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को जिले में विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे नेताओं को भी चिह्नित किया जा रहा है जो अपनी पार्टी में या तो साइडलाइन है या नाराज चल रहे हैं। जिला स्तरीय नेताओं को जिले और प्रदेश स्तरीय नेताओं को प्रदेश मुख्यालय में भाजपा में शामिल कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक कमेटी गठित की जा रही है। जिलों से प्रस्ताव कमेटी के पास भेजे जाएंगे। कमेटी प्रस्ताव की जांच के बाद अपनी संसुति प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को देगी। उनकी हरी झंडी के बाद संबंधित नेता को भाजपा में शामिल कराया जाएगा।

# मीराबाई के जरिये पीएम मोदी ने ऐसे साधा राजस्थान का चुनाव

### एजेंसी

मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई की 525वीं जयंती पर ब्रजभूमि से आजाद भारत की पहली नेहरू सरकार पर तीखा वार किया। ब्रज के विकास को केंद्र में रख बोले, देश की आजादी के बाद जो पवित्र महत्व ब्रज को मिलना चाहिए था दुर्भाग्य से वह नहीं मिला, जो लोग भारत को उसके अतीत से काटने चाहते थे भारत की संस्कृति, उसकी आध्यात्मिक पहचान से अनजान थे। वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को विकास से वंचित रखा। आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। भाजपा सरकार लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लेकर अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने



बृहस्पतिवार को मथुरा में उग्र पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित मीराबाई की 525वीं जयंती के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मीराबाई पर डाक टिकट, 525 रुपये का सिक्का जारी किया। मीराबाई पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी। साथ ही सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा प्रस्तुत मीराबाई हेमा नाटिका भी देखी। पीएम मोदी ने यहां कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर के लोकार्पण की तिथि आ गई है। मथुरा भी पीछे नहीं रहेगा। 84 कोस में फैले ब्रज के मथुरा, वृंदावन,

फिरोजाबाद, कासगंज, राजस्थान के करौली, भरतपुर और हरियाणा के पलवल में भी विकास होगा। इन तीनों प्रदेशों की सरकार के साथ विकास पर वार्ता की जाएगी। पीएम मोदी ने कान्हा की धरती से मीरा की प्रशंसा करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव को भी साधा। कहा कि मीराबाई के परिवार व राजस्थान की अन्य जनता ने आस्था के केंद्रों व भारत की आत्मा-चेतना की रक्षा की। ब्रज कान्हा की तो राजस्थान वीरों की भूमि है।

### कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रज का गुजरात से एक अलग रिश्ता रहा है। मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। उनका अंतिम समय भी गुजरात में ही बीता था। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त संत मीराबाई का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा शक्ति है। मथुरा की पावन धरा पर संत मीराबाई की 525वीं जन्म-जयंती के उत्सव में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ब्रज के कण-कण में श्रीकृष्ण समाए पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर ब्रज और ब्रजवासियों का दर्शन मिला है। कहा कि यहां वही आता है जिसे श्रीकृष्ण बुलाते हैं। यह कोई साधारण धरती नहीं है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्ष्य अवतार है। ब्रज की रज रज में राधा

रानी रमी हुई हैं। कण कण में श्रीकृष्ण समाए हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद लोगों से विलंब से आने के लिए क्षमा मांगी। कहा कि राजस्थान के चुनावी मैदान में था। वहां से भक्ति के माहौल में आया हूं। मोदी ने देश को नए भारत के दर्शन कराए-योगीसीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले साढ़े नौ सालों में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है। इस नए भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया पलक पावड़े विखरकर स्वागत करती है। इस नए भारत के रूप में एक विकसित भारत का नक्शा दुनिया के सामने पेश करता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। यह नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा भी देता है।

## अयोध्या के लोकार्पण की तिथि आ गई है मथुरा भी अब दूर नहीं है: पीएम मोदी

आगरा। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में 20 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने इस भाषण में कहा कि अयोध्या के लोकार्पण की तिथि आ गई है। मथुरा भी अब दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा के रेलवे ग्राउंड पर आयोजित 'मीराबाई जन्मोत्सव' में भाग लिया। यहां मंच से उन्होंने 20 मिनट का भाषण दिया। मगर, अंतिम दो मिनट में उन्होंने अयोध्या से जोड़ते हुए मथुरा को लेकर बयान दिया। इस बयान के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला अयोध्या की

तर्ज पर बांके बिहारी के कॉरिडोर से जोड़कर विकास के संदर्भ व दूसरा श्रीराम जन्मभूमि की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह मस्जिद की छंव से निकालने के संबंध में माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पुनर्रस्थान के पीछे श्रीकृष्ण का ही आशीर्वाद है। मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से यहां संत आए। सभी का संदेश और उद्देश्य एक ही था। ब्रज की धरा असाधारण है। यहां वही आता है, जिसे स्वयं श्रीकृष्ण और श्रीजी बुलाते हैं। ब्रज की रज भी पूजनीय है। यहां के कण-कण में कृष्ण समाए हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रज में आने से विश्व के तीर्थों का लाभ

मिलता है। ब्रज लाडली जी और लाडले जी के प्रेम का अवतार है। पीएम मोदी ने एएसएम पर लिखा आगमन का ब्योरा पीएम मोदी ने मथुरा आने से पहले अपने दौर को लेकर एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि संत मीराबाई का जीवन निश्चल भक्ति और आस्था का अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन और देहे आज भी हम सभी के अंतरमन को ब्रह्म-भाव से भर देते हैं। उनकी 525वीं जयंती पर मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। इससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा।

# पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पाण्डेय को मातृ शक्ति सम्मान से नवाजा जायेगा

द अचीवर टाइम्स दीपक कनौजिया।

ज्वाव। हमारे देश में बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके नेक कामों से पब्लिक के बीच पुलिस की छवि बदल रही है, जहां एक और अपराधियों के मन में वर्दी का खौफ है वहीं दूसरी ओर यही वर्दी समाज में बदलाव की कहानी लिख रही है ऐसे ही नेक दिल लोगों में से एक हैं महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पाण्डेय। पुलिस सेवा के दायित्वों को बाखूबी निभाने के साथ सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पाण्डेय को मातृ शक्ति सम्मान के लिए चयनित किया गया है। उनको यह सम्मान बदलते भारत की नई उड़ान फाउंडेशन द्वारा 26 नवम्बर को उत्राव के निराला प्रेशा गृह में आयोजित होने वाले मातृ शक्ति सम्मान समारोह में सम्मानित दिया जाएगा। बदलते भारत की नई उड़ान फाउंडेशन के



प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र पाण्डेय के संयोजन में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पाण्डेय के साथ विभन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य करने वाली 42 नारी शक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के संरक्षक प्रमोद मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र पाण्डेय एवम प्रदेश

सचिव / प्रबंधक श्री राम मौर्य + सोनू + द्वारा सम्मान समारोह से संबंधित बैठक आज संस्था के कार्यालय में आयोजित करने के रूपरेखा तैयार की गई। पुलिस वाली दीदी के नाम से लोकप्रिय उप निरीक्षक रीना पाण्डेय को विशेषकर गरीब महिलाओं की मदद करने आनंद मिलता है, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक गरीब महिलाओं को कानूनी जानकारी दी जाए और उनके अधिकार दिलाए जाएं। रीना पाण्डेय पिछले 25 वर्षों में 1 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को जागरूक कर चुकी हैं। जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 से अधिक गांवों में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सिलाई कढ़ाई केंद्र खुलवाकर सड़कों महिलाओं को लाभ पहुंचा रही हैं। उप निरीक्षक रीना पाण्डेय द्वारा 10 गरीब बच्चियों को शैक्षिक अंगीकार किया गया है। गांव और कच्ची बस्तियों में समय समय पर आत्मरक्षा करने वाली रीना पाण्डेय लड़कियों को प्रोत्साहित करती हैं। कुछ महिलाएं अशिक्षित होने के कारण कानून के बारे में जानकारी नहीं रखती, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं आर्थिक स्थिति के चलते कानूनी मदद लेने में सक्षम नहीं होती, इसलिए वे ऐसी महिलाओं की मदद करती हैं, जो बेहद गरीब हैं। वे अपने पति पुलिस सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व की प्रेरणा और सहयोग से गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। रीना पाण्डेय को इससे पहले कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पंकज गुप्ता (सदर विधायक), मुख्य वक्ता डा.ए.के. दीक्षित (पूर्व प्राचार्य महाविद्यालय) और विशिष्ट अतिथि श्वेता मिश्रा (अध्यक्ष नगर पालिका) जिलाधिकारी उत्राव अपूर्वा दुबे, प्रीती चौधरी (महिला बाल कल्याण अधिकारी), प्रीती सिंह (अध्यक्ष बाल कल्याण समिति / न्यायाधीश), प्रतिभा मिश्रा, शशि कला शुक्ला, रश्मि दीक्षित सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी।

## एकादशी (जेठवन पूजा)के अवसर पर मेले का हुआ आयोजन



कमेटी समेत समस्त ग्राम वासियों ने फूलों का हर पहनकर किया स्वागत। क्षेत्रीय विधायक ने बताया लगभग हर मेले में मैं यहां अपनी उपस्थिति दर्ज की है आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि बड़े ही प्रेम पूर्वक ढंग से मेले का आयोजन करते चले आ रहे हैं मैं यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद विवाद न करे आराम से मेले में रंगारंग प्रोग्राम का आनंद लीजिए। आपको बताते चले कि क्षेत्रीय विधायक ने कहा यह मेला नहीं बल्कि मिलने-मिलाने का बहाना है हम सब लोग पिछले सभी सिकवा सिकायत भूलकर मेले में एक दूसरे से मिल पाते हैं और कहा जिस भी गांव में मेले का आयोजन किया जाता है लगभग हर घर में रिश्तेदार आते हैं मेले में सभी ग्रामीणों को शराव न पीने की बात कही जिससे सभी में प्रेम भाव बना रहे कोई विवाद जैसी स्थिति न उत्पन्न हो।

द अचीवर टाइम्स - महेन्द्र कुमार

हसनगंज ज्वाव। विधानसभा 164-मोहान के अंतर्गत ग्राम चिलौला निवासी ग्रामीण हर वर्ष की तरह एकादशी जेठवन पूजा पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं मंदिर प्रांगण में ग्रामीण करवाते हैं मेले का आयोजन मेले में क्षेत्रीय विधायक का हुआ आगमन। ग्राम चिलौला निवासियों ने क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कुमार रावत का बड़े ही जोर-शोर के साथ उत्साह वर्धक ब्रजेश रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मेला

## एक नज़र

श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर निकली निशान शोभायात्रा

द अचीवर टाइम्स सुशील अवस्थी

महमुदाबाद, सीतापुर। श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर बहुत ही धूमधाम से खाटू श्याम भक्तों ने रामकुंडा चौराहे पर स्थित श्री हनुमान मन्दिर जी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर खाटू श्याम जी को रथ पर शोसोभित कर बेंड बाजे के साथ भक्त अपने हाथों में निशान (धुन्ज)लेकर खाटू श्याम के नारों से सँजय मान कर बस स्टॉप चिकमण्ड्री से होते हुये बजाजा बाजार टट्टरी बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर जी में शोभायात्रा समाप्त हुई। इस शुभ अवसर पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य गण के साथ साथ नगर के सम्मानित भक्त गण वा महिलाये भी उपस्थिति दर्ज कराई।

नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा द्वारा पुवायां रोड सिंचाई विभाग स्थित नदीशाला का निरीक्षण किया गया

द अचीवर टाइम्स फसाद खान हरदोई। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा जी द्वारा आज दिनांक 23-11-2023 को नगर क्षेत्र के पूवायां रोड पर सिंचाई विभाग स्थित नदीशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 08 गौसेवक उपस्थित पाये गये तथा 396 गौवंश होना बताया गया, जिनमें से 06 गौवंश बीमार होना बताया गया, समुचित इलाज हेतु संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया। साफ-सफाई की स्थिति को देखा गया, सफाई व्यवस्था सही पाई गई। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति व प्रकाश बिंदुओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय महाप्रबंधक जल सौरभ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता सिविल आशीष त्रिवेदी, सहायक अभियंता जलकल प्रेमचन्द्र आर्य एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

महिला से मारपीट करने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा

द अचीवर टाइम्स संवाददाता लखनऊ। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से दबंगों ने गाली गलौज के साथ की मारपीट। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने मोहनलालगंज कोतवाली के हुलास खेड़ा चौकी में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराया है कि विपक्षी राकेश राजेश ब्रजेश संतराम के साथ मिलकर पीड़िता शिव दुलारी से गाली गलौज के साथ बेरहमी से मारपीट की जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने शिकायत करने जा रही थीं तथा विपक्षियों ने रास्ते में रोककर धमकी देते हुए फिर मारपीट की जिसके संबंध में महिला ने नजदीकी चौकी पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीड़ित महिला के शिकायत पर पुलिस ने विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कार्यवाही शुरू कर दी है।

यूपी-112 में मनाया गया पुलिस इंडा दिवस



द अचीवर टाइम्स प्रशान्त अवस्थी लखनऊ। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के शौर्य एवं साहस के प्रतीक रूप में 23 नवम्बर 1952 को पुलिस कलर प्रदान किया गया, जिसे हम पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर 112 भवन में श्रीमती नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी-112 द्वारा ध्वजारोहण कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का सन्देश पढ़ा गया, जिससे पुलिस जन अपने कर्तव्य के प्रति पुनः कृत संकल्प हुए। इस अवसर पर 112 भवन में एसपी सिंह पुलिस उममहानिरीक्षक टेलीकॉम, पुलिस अधीक्षक एस के शुक्ल, दिनेश त्रिपाठी व एसपी श्रीमती मोहिनी पाठक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूपी पुलिस का मानवी चेहरा आया सामने

द अचीवर टाइम्स प्रशान्त अवस्थी मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश पुलिस आए दिन सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है तो वहीं पर डायल 112 पीआरबी 3703 ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दिव्यांग व्यक्ति से पूछताछ कर पीआरबी द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी सक्षुशल उनके घर पहुंच कर बेटे के किराया सुपुर्द एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है तो वहीं पर पुलिस का सरहनी कार्य भी देखने को मिल रहा है पीड़ित परिवार ने 112 पीआरबी का किया धन्यवाद

## नवाबगंज स्वास्थ्य केन्द्र के जिम्मेदारों की लापरवाही नहीं खुला Xrey रूम का ताला

द अचीवर टाइम्स संवाददाता

ज्वाव। नवाबगंज दूर दराज से आये मरीज बिना जांच के थकहार कर वापस जाने को मजबूर है। हालांकि केंद्र पर हड्डि का कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन तथा टीबी के संभावित गंभीर मरीजों के चेस्ट का xह्रद4 न हो पाने की दशा में डॉ अनुमान से दवा लिख रहे। जांच न होने से गंभीर रोगी को समय से उपयुक्त इलाज न मिल पाने की दशा में मरीज की जान पर भी बन सकती है। ऐसा ही एक मरीज मिला जिसने बताया कि उसको कई दिनों से खांसी के दौरान खून आ रहा है और बीते सोमवार और आज बुधवार को वह दिखाने आया है लेकिन एक्स-रे रूम बंद होने की वजह से उसका एक्सरे नहीं हो पाया। डॉ ने बिना जांच के ही दवा लिख दी। जिम्मेदार पता नहीं किन कारणों से कार्यवाही करने से बच रहे हैं, लेकिन लगातार लापरवाही के सामने आने के बाद अगर आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं तो हो सकता है किसी दिन आप पर ही कार्रवाई हो जाए।

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। योजनाओं के संतुलीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों हेतु 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज सण्डीला विकास खण्ड के ग्राम सरैया मारुफपुर व आलमपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्टॉलों पर लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गयी। पूर्ति विभाग द्वारा उज्वला योजना के नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया

## विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभागीय स्टालों का दिखा आकर्षण

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। योजनाओं के संतुलीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों हेतु 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज सण्डीला विकास खण्ड के ग्राम सरैया मारुफपुर व आलमपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्टॉलों पर लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गयी। पूर्ति विभाग द्वारा उज्वला योजना के नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया

लेकर जागरूक किया गया। मृदा हेलथ कार्ड के बारे में जानकारी दी गयी। आमजन को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गयी। पूर्ति विभाग द्वारा उज्वला योजना के नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया

## पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कैम्प लगाकर आवेदनों का निस्तारण करायें : डीएम

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण करायें।

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण करायें।

## बाल श्रमिकों से श्रम करते हुए मिले हुई कार्यवाही

द अचीवर टाइम्स फसाद खान

शाहजहांपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पात्र अंश संख्या 1601 पब्लिक 35 ऑब्लिक 2013 सावली चाइल्ड लेबर पब्लिक एनसीपीसीआर दिनांक 25 9 2023 द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिकों के चिन्ह हकें एवं पुनर्वासन हेतु संचालित प्रदेशव्यापी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.11.2013 को जिला अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ल सजय निकट स्टेट बैंक कॉलोनी शाहजहांपुर में जल निगम

द अचीवर टाइम्स फसाद खान

शाहजहांपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पात्र अंश संख्या 1601 पब्लिक 35 ऑब्लिक 2013 सावली चाइल्ड लेबर पब्लिक एनसीपीसीआर दिनांक 25 9 2023 द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिकों के चिन्ह हकें एवं पुनर्वासन हेतु संचालित प्रदेशव्यापी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.11.2013 को जिला अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ल सजय निकट स्टेट बैंक कॉलोनी शाहजहांपुर में जल निगम

द अचीवर टाइम्स फसाद खान

शाहजहांपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पात्र अंश संख्या 1601 पब्लिक 35 ऑब्लिक 2013 सावली चाइल्ड लेबर पब्लिक एनसीपीसीआर दिनांक 25 9 2023 द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिकों के चिन्ह हकें एवं पुनर्वासन हेतु संचालित प्रदेशव्यापी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.11.2013 को जिला अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ल सजय निकट स्टेट बैंक कॉलोनी शाहजहांपुर में जल निगम

## ओटीएस में लापरवाही पर जेई और एसडीओ के निलंबन की संस्तुति

हरदोई। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रूचि न लेने और लापरवाही बरतने पर अवर अभियंता सुरसा और उपखंड अधिकारी (एसडीओ) बावन के निलंबन की संस्तुति की गई है। बिजली विभाग की ओर से एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर लगे सरचार्ज में छूट दी जा रही है। विभाग की ओर से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अधिकारियों को उपकेंद्र पर शिविर लगाने और पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ओटीएस योजना की मानीटरींग के भी निर्देश हैं। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय रविंद्र कुमार खोलका ने गुधवार पर लीड बैंक प्रबंधक और इटौली का निरीक्षण किया। दोनों उपखंड में योजना की खराब प्रगति पाई गई थी।

## सौर ऊर्जा से रोशन होंगे सभी 640 माध्यमिक विद्यालय

हरदोई। बिजली की खपत कम कर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कवायद चल रही है। इसी क्रम में जनपद के सभी 640 माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। सभी माध्यमिक विद्यालयों में पांच किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे विद्यालयों को बिजली समस्या से निजात मिलेगी। जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध 640 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 55 राजकीय, 72 एडेड और 513 वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। प्रथम चरण में सभी राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हुआ है। इसके तहत 55 में से 19 विद्यालयों में सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हुआ है। 72 एडेड विद्यालयों में सोलर पैनल लगाने के लिए कार्ययोजना बनाकर नेडा को भेजी जा चुकी है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

## जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

## बिजली बिल के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

## बिजली बिल के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

## बिजली बिल के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

## बिजली बिल के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना

द अचीवर टाइम्स निशांत शुक्ला

हरदोई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग विभाग बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। उन्होंने बैंकों से कहा कि आवेदनों का निस्तारण ससमय निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना





# राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक्टिव कैस फाइंडिंग एसीएफ टीबी खोजी अभियान की हुई शुरुआत

## अभियान

आगामी 5 दिसंबर तक चलेगा जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण



आश्रम, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मदरसा, नवोदय विद्यालय, कारागार चिन्हित समूह स्थल तथा सब्जी मंडी, फल मंडी, लेबर मार्केट, निर्माण अधीन प्रोजेक्ट ईट भंडे, स्टोन क्रेशर, खदानें, साप्ताहिक बाजार इत्यादि को भी आच्छादित किया जाना है। ब्लॉक की कुल जनसंख्या की 20व आबादी को टीबी खोजी कैम्प के अंतर्गत शामिल करते हुए। अत्यधिक संवेदनशील जनसंख्या में संभावित टीबी मरीजों को खोज उपरांत, जांच एवं उपचार किया जाना भी सुनिश्चित कराया जा

रहा है। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा डॉक्टर बी0 के0 खेही ने बताया कि शासन से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार हमारे ब्लॉक स्योहारा में भी इस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। इस अवसर पर 24 टीमों का गठन किया गया है और उनकी निगरानी के लिए पांच सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। इनमें मोहम्मद उमर फारूक एमटीएस, मनजय कुमार गुप्ता एमटीएस, शुभम कुमार, राजेश कुमार सिंह और वीर सिंह हेल्थ सुपरवाइजर इत्यादि शामिल हैं साथ ही जो 24

टीमें गठित की गईं उनमें खास तौर पर शहरी क्षेत्र के हयात नगर, इस्लामनगर, मिल्कयान, पीर का बाजार कस्बा सेखान, मुस्लिम चौधरियां, हिंदू चौधरियां, मंसू सराय, पीथथापुर, अलादीनपुर, फैजुलपुर, सफियाबाद, बना वाली, बसंतपुर, कृष्ण आश्रम, सब्जी मंडी, फल मंडी और ईट भंडे आदि क्षेत्रों में ए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए रानावली और बसंतपुर को टीबी मुक्त ग्राम सभा के रूप में चुना गया है। इस विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉ0 खेही ने बताया कि यदि किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा से खांसी आती हो और खांसते समय बलगम में खून आ रहा हो, सीने दर्द तथा बुखार एवं वजन कम होने की शिकायत हो तो वे अपने बलगम की जांच अवश्य कराएं। सरकारी अस्पतालों में यह जांच निःशुल्क कराई जाती है। साथ ही निःशुल्क ही इसकी दवा भी दी जाती है। साथ

ही मरीज को 500 रुपये भी डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में दिए जाते हैं ताकि वो पोष्टिक आहार ले सके। भारत सरकार की मन्सा है कि 2025 में भारत टीबी मुक्त देश बने। इसी के क्रम में इन अभियानों पर जोर दिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बलगम की जांच करवाई जाए। इसके लिए प्रत्येक माह की 15 तारीख को नई क्षय दिवस भी मनाया जाता है। हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर भी सीएचओ द्वारा इसमें बलगम के नमूने सीएचसी पर जांच को भेजे जाते हैं। जिले से आई टीम में नितिन श्रीवास्तव डीपीसी और अनल रावत बीसीजी टेक्नीशियन, के द्वारा भी नगर में हयात नगर, इस्लाम नगर में चल रहे कार्यक्रम की निगरानी और निरीक्षण किया गया। सभी जगह टीमें कार्य करती पाई गईं। इस दौरान, मुकेश शर्मा, नरेन्द्र, ओर समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा।

# सुदामा चरित्र कथा सुनकर श्रोता हुए भाव विभोर बहने लगे आंशु

## संवाददाता

इरेखापुर सीतापुर। क्षेत्र के सेतुसऊ में खंडवाह बाबा स्थान पर चल रही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के बदरू (कच्छला ब्रिज) से पधारे कथा वाचक श्री ब्रजभूषणचारी जी महाराज ने भागवत कथा के अंतिम दिन कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें श्रीकृष्ण सुदामा प्रसंग, परीक्षित मोक्ष की कथा का बड़े ही रोचक अंदाज में वर्णन किया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते समय आचार्य व श्रोतागण इतना भावविभोर हो गए कि आँखों से अश्रु बहने लगे, श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल पेश की। कि प्रेम निश्चल होना चाहिए, समाज को समानता का संदेश दिया। इस कड़ी में महाराज ने बताया श्रीमद्



भागवत कथा का सात दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, वहीं इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। अंतिम दिन सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत भागवत कथा का पूर्णता प्रदान करते

हुए विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। आचार्य जी का मुख्य रजमानों संतोष मिश्रा, वीरेंद्र सिंह चौहान, छोटेलाल मिश्रा ने माल्यार्पण व चंदन टीका कर विदाई दी।। विश्राम दिवस पर जिलाध्यक्ष भाजयुमो सचिन मिश्रा, जिला कोसाध्यक्ष

रामप्रताप सिंह, प्रधान अनुपम सिंह अर्मी, विमला सिंह हर्याव, महेंद्र सिंह, रवि शुक्ल, अर्पित चौहान, बिजनेश, शुभम, कामेश, हिमांशु, साकेत, प्रजुल, शिवम अवस्थी आदि सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे।।

## एक नज़र

लापता बालिका को पुलिस ने 24 घंटे में किया बरामद

### द अचीवर टाइम्स रमेश चंद्र लखीमपुर खीरी फरधान।

थाना क्षेत्र के गांव सैदापुर सराय गांव निवासी घर से साइकिल से मां की दवा लेने गई अचानक लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया

ब्रामद। किशोरी मां की रकूदीपुर दवा लेने गई थी। जहां से लापता हो गई थी और साइकिल सड़क किनारे पड़ी मिली थी। गुरुवार को सुबह परिजन की सूचना पर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किशोरी को सुकशल बरामद कर लिया। किशोरी के परिजनों ने विशाल नमक युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है।

बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के सैदापुर सराय निवासी 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार को दोपहर साइकिल से अपनी मां के लिए रकूदीपुर कस्बे में दवा लेने गई थी। वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची। परिजन उसे काफी देर रात तक खोजबीन करते रहे लेकिन कहीं पता नहीं चला। किशोरी की साइकिल गुरुवार की सुबह सराय गांव के पास सड़क किनारे पड़ी मिली। किसी अनजाने की शंका से परिजन ने 112 पुलिस और थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन करने में जुट गई। एसओ ब्रजेश कुमार मौर्य ने बताया परिजनों ने गुरुवार की सुबह नौ बजे थाने में सूचना दी थी। उसके बाद थाना क्षेत्र में तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर डसरापुर तिराहे से एक युवक विशाल कुमार को को गिरफ्तार किया। जिसके पास से 15 वर्षीय किशोरी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया गुमशुदगी तुरंत कर ली थी। उसके बाद परिजनों के आरोप के आधार पर पकड़े गए युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के और अपहरण करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है।

### कार्तिक पूर्णिमा पर वन-वे रहेगा यातायात

हरदोई। कार्तिक पूर्णिमा पर राजघाट आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बिलग्राम से वन-वे यातायात व्यवस्था रहेगी। राजघाट पर लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं का एसडीएम ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। पूरे दिन व्यवस्थाएं जुटाई जाती रहें। बेरियाघाट पर कल्पवास के लिए श्रद्धालुओं का गुरुवार से आना शुरू हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर राजघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राजघाट तक जाने और वापस आने में यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए वाहनों के जाने और आने के लिए अलग-अलग रास्ता चिह्नित किए गए हैं। बिलग्राम एमडीएम संजीव ओझा ने गुरुवार को राजघाट पर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगाए जा रहे पंडाल के संबंध में जानकारी ली। बताया कि राजघाट के लिए रास्तों को बिलग्राम स्थित गुलाब बड़ी चुंगी से बंटवारा किया गया है। इसमें वाहनों के जाने के लिए एक मार्ग और वापसी के लिए एक मार्ग की ओर से वापस आएंगे। भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य, प्रशासनिक विभाग और खोया-पाया कैम्प आदि शिविर लगाए जा रहे हैं। बेरियाघाट पर मां गंगा की आरती के पंडाल के साथ ही अन्य पंडाल व अस्थाई घाट तैयार कराए गए हैं।

### काशी के आचार्य करेंगे बेरियाघाट पर मां गंगा की आरती

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि बेरियाघाट पर इस वर्ष भी राजकीय मेले में काशी से आए आचार्य पुण्य सलिला मां गंगा की आरती करेंगे। मां गंगा की आरती व अर्चना प्रतिदिन शाम पांच बजे होगी। 100 वर्ग मीटर का पंडाल आरती के लिए बनाया गया है। मेला में पर्याप्त संख्या में गोताखोर, नाव व स्टीमर की व्यवस्था की गई है।

### दोहरे हत्याकांड में 12 पर आरोप तय

हरदोई। जनपद के चर्चित दोहरे हत्याकांड में 12 आरोपियों पर बुधवार को आरोप तय हो गए। जिला जज राजकुमार सिंह ने वादी पक्ष को गवाही के लिए पांच दिसंबर की तारीख नियत की है। मझिला थानाक्षेत्र में 22 मार्च 2023 को चुनावी रॉजना में दिनदहाड़े प्रधान के भतीजे और एलएलबी छत्र की हत्या हो गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिकारिता सूरज पाल सिंह ने बताया कि मझिला थानाक्षेत्र के पारा गांव निवासी अनिल शुक्ला का आरोप है कि उनका बेटा अमित एलएलबी का छत्र था। 22 मार्च 2023 को गांव के प्रधान नंदलाल कुशवाहा के भतीजे रमाकांत व संतोष कुशवाहा के साथ बाइक से ब्लॉक मुख्यालय टोडरपुर से लौट रहा था। इसी बीच गांव के रनवीर प्रताप सिंह उर्फ राजा बाबू, वीरेंद्र सिंह उर्फ बड़े सिंह, जिनंद सिंह उर्फ बड़के सिंह, यशवंत सिंह उर्फ छुटके सिंह, नीरज सिंह, सूरज सिंह, कन्हू सिंह उर्फ कुलदीप, राघव सिंह, दानबहादुर उर्फ धन्ना सिंह बोलेरो से आए और बीच रास्ते में रोककर तीनों पर हमला कर दिया। आरोप है कि बांके और पंचेसक से प्रहार करने के बाद बोलेरो से कुचल दिया था। मरणसन्न हालत में तीनों को खाई में फेंक दिया था। घटना में अमित और रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संतोष घायल हो गया था। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में पुरुषोत्तम, कुलदीप, सौरभ का नाम भी घटना में सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। बुधवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिरी के लिए तलब किया गया। इसके साथ इन पर आरोप तय कर दिए गए। आरोपियों ने लगे हुए आरोपों से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है। इसी के चलते जिला जज ने पांच दिसंबर को वादी पक्ष को गवाही के लिए तलब किया है।

# मुलायम सिंह यादव की जयंती पर स्टाल लगाकर बाटी चाय और पकौड़ी

## संवाददाता

बरवर खीरी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर उनके चाहने वालों ने शहर लखीमपुर खीरी में स्टाल लगाकर चाय और पकौड़ी का वितरण कर उन्हें खिराज ए अकीदत पेश की आपको बताते चलेंगी जिला समाजवादी कमेटी में पूर्व जिला सचिव व विधानसभा शहर अध्यक्ष रहे फैसल खान ने अपने कार्यालय के निकट स्टाल लगाकर मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर लोगों को चाय पकौड़ी बांट कर अनेकों मिसाल पेश कर कर खिराज ए अकीदत पेश की इसी दौरान फैसल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हमेशा



किसानों गरीबों व यतीमों की आवाज बुलंद किया करते थे आज उनकी ना मौजूदगी में हम लोगों ने स्टार लगाकर उनको याद किया। नेताजी भारत के राजनीति में एक स्वच्छ छवि व ईमानदार व्यक्ति के रूप में भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी नेताजी हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाजों को बुलंद किया करते थे दुख इस बात का है

आज नेता जी हम लोगों के बीच नहीं हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको खिराज ए अकीदत पेश करते हैं इस दौरान फैसल खान मनीष तिवारी रामकुमार यादव युसूफ आनंद पटेल राजेश इमरान चौधरी कलीम खान कलीम गाजी इफ्फान गाजी रेहान गाजी सलमान रामकुमार पटवा रफी रानू चौरसिया फूलचंद आदि लोग मौजूद रहे।

# सरकारी डॉक्टर के सहारे चल रहा अल्फा हॉस्पिटल नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती कराती है डिलीवरी

## संवाददाता

लहरपुर सीतापुर। नहीं थम रहा अवैध अस्पतालों का सिलसिला स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने में हो रहा पीछे गौरतलब है कि लहरपुर नगर में इस समय प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है एक मायने में कह ले तो प्राइवेट अस्पताल एक कमाई का जरिया बने हुए हैं प्राइवेट अस्पताल के मालिकों की सोच यह है कि अस्पताल खोलो आने वाले मरीजों को बेवकूफ बना लो और अच्छे खासे पैसे एट लो ऐसा ही कुछ लहरपुर नगर के मोहल्ले गन्नी टोला में अल्फा हॉस्पिटल कर रहा है जो की नॉर्मल तरीके से होने वाली डिलीवरी को भी ऑपरेशन करके करवाता है और यहां तक की उस डिलीवरी को लहरपुर नगर के मोहल्ले छवनी की



रहने वाली एक युवती डिलीवरी कराती है अल्फा हॉस्पिटल एक सरकारी डॉक्टर के सहारे चल रहा है जिसका नाम मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है जो की गैर कानूनी है जो डॉक्टर सरकारी कार्यरत हो वह

प्राइवेट अस्पताल व क्लिनिक नहीं चला सकता लेकिन पैसे की चाह ने मोहम्मद इलियास डॉक्टर को कुछ ऐसा अंधा किया कि वह अल्फा हॉस्पिटल के साथ मिलकर मरीज के साथ खेल खेलने लगे और अच्छे

खासी रकम एटने लगे मामला यहीं नहीं थमता सूत्रों का कहना है कि अल्फा हॉस्पिटल में कुछ सरकारी अस्पताल से दवाइयों भी आती हैं जो मार्केट रेट के अनुसार मरीज को दी जाती हैं खास सूत्रों की माने तो इन सारे खेल में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका कहीं ना कहीं से सतिध दिखाई दे रही है अब देखना यह है कि समय

## द अचीवर टाइम्स रमेश चंद्र



लखीमपुर खीरी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव व श्रावस्ती के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में इस व्यवस्था को लागू कराया जाए। अब बीएसए इसे लागू कराने में नाकाम रहते हैं तो

उन्के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब इन जिलों के बीएसए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों की उपस्थिति की रिपोर्ट सत्यापित कराई जाएगी। विभागीय आदेश न मानने और व्यवस्था का विरोध करने पर शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उपस्थिति न दर्ज करने पर उन्हें अनुपस्थित मानते हुए वेतन काट दिया जाएगा।

# गुरू तेगबहादुर जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया

## संवाददाता

लखीमपुर खीरी। आज विद्या भारती विद्यालय पं0 दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालेज (यू.पी. बोर्ड) लखीमपुर खीरी में गुरू तेगबहादुर जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय के प्रथम सहायक कुन्तीश अग्रवाल ने मां सरस्वती व गुरू तेगबहादुर जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांचन कर किया। शारीरिक आचार्य प्रवेन्द्र कुमार सिंह जी ने बताया कि आज का दिन उत्साह शौर्य और देश प्रेम तथा अपने आप को देश के लिए समर्पण को याद दिलाता है। यह कहानी बड़ी पुरानी है यह वीरों वाली वाणी है यह शीश धरा पर धरा नहीं शीश कटा पर झुका नहीं उस समय धर्मांतरण का कार्य बहुत



तेजी से चल रहा था। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी से भी कहा आप मुस्लिम बन जाएं हम तुम्हें छोड़ देंगे परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा लिया लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। कक्षा 12 के भैया संदर्भ दीक्षित ने बताया 21 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। इनके पिता का नाम हर गोविंद जी

और माता का नाम ननकी था। 1965 में गुरु कृष्णा साहब के बाद नौवें गुरु बने। भैया ने बताया औरंगजेब कश्मीर में धर्मांतरण करवाकर हिन्दुओं को मुस्लिम बनवा रहा था तब कुछ कश्मीरी हिन्दू गुरु तेगबहादुर जी के पास आये और अपना दुख व्यक्त किया जिस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि औरंगजेब से कहिए कि पहले गुरु तेग बहादुर जी का धर्मांतरण करवाए।

औरंगजेब ने इनका शीश दिल्ली के चांदनी चौक में 24 नवंबर 1975 को कटवा दिया। उनकी याद में अब वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा है। इनकी बहादुरी के कारण ही इन्हें हिंदू दी चादर कहा जाता है कक्षा 9 के भैया प्रवीण कुमार ने अंग्रेजी में भाषण दिया। विद्यालय के प्रथम सहायक श्री कुन्तीश अग्रवाल जी ने बताया कि औरंगजेब अपने दरबार में हर धर्म के जानने व बताने वाले लोग रखे

थे एक पंडित जी रोज उसे गीता के श्लोक पढ़कर सुनाते थे व अर्थ भी समझाते थे लेकिन वह पंडित जी सभी श्लोक का अर्थ नहीं समझाते थे एक दिन पंडित जी बीमार पड़ गए तब उन्होंने अपने लड़के को दरबार में भेजा लेकिन पंडित जी अपने लड़के को ये बताना भूल गये कि सभी श्लोकों के अर्थ नहीं बताना है। लड़के ने सभी श्लोक पढ़कर अर्थ सहित समझाए तभी से औरंगजेब को यह समझ में आया कि हिन्दू धर्म से अच्छा धर्म कोई हो नहीं सकता इसलिए उसने हिन्दू धर्म को खत्म करने हेतु सभी को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा। उसने गुरु तेग बहादुर जी को कई प्रलोभन दिए जब वह नहीं माने तो उसने उनका शीश दिल्ली के चांदनी चौक में काटने का आदेश दिया। उनकी याद में आज वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

## 21 लाख से होगी दो रजबहा, आठ माइनरों की सिल्ट सफाई

सवायजपुर। शारदा नहर खंड शाहजहांपुर के तहत रबी की फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए दो रजबहा और आठ माइनरों में करीब 85 किलोमीटर क्षेत्र में सिल्ट सफाई होगी। इसके लिए 21 लाख की स्वीकृति मिली है। रबी की फसलों की बोआई चल रही है। इसके अलावा जिले में गन्ने की पैदावार भी अच्छी खासी होती है। फसलों की सिंचाई के लिए रजबहा और माइनर से बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं। अवर अधिवंता अमन गुप्ता ने बताया कि बरबन रजबहा में 31 किलोमीटर, सवायजपुर रजबहा में 24 किलोमीटर और 30 किलोमीटर लंबी माइनरों में पकरी, बेहटी, आमतारा, हथौड़ा, पचदेवरा सहित आठ शामिल हैं। सभी की सफाई एक माह में पूरी करने के निर्देश ठेकेदारों को दिए गए हैं।

## पति है नपुंसक, जेठ और ससुर जबरन नोचते हैं शरीर



समय तक पति उससे दूरी बनाने का प्रयास करता रहा। शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देने पर उसकी

### संवाददाता

**आगरा।** एक विवाहिता ने पति पर शारीरिक संबंध बनाने में अयोग्य होने की बात कहकर फफक पड़ी। कहा कि जेठ और ससुर जबरन उसका शारीरिक शोषण करते हैं। पीड़िता ने महिला चौकी में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला अन्धेरा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि उसकी शादी फरवरी माह में ताजगंज थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में हुई थी। शादी के काफी

पीटाई कर दी। सास ने भी शिकायत पर उसे ही डांट दिया। बाद में पता चला कि पति शारीरिक संबंध बनाने लायक नहीं है। इसकी जानकारी होने पर ससुराल के लोग घर के अन्य सदस्यों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि एक रात सोते समय जेठ ने जबरन उसके साथ संबंध बना लिए। शिकायत करने पर उसकी पीटाई की गई। जेठ के साथ ही ससुर ने भी उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाया। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी।

## एक नज़र

**फंदे से झूला चांदी कारीगर, पड़ोसी की सुदखोरी से परेशान था बेटा, पुलिस कर रही जांच**

**आगरा।** चांदी कारीगर ने फंदे से लटककर जान दे दी। घरवालों ने देखा तो चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। मौजूद लोग पीड़ित परिजन को ढंडस बंधाते रहे। परिजन ने पड़ोसी पर सुदखोरी करने का आरोप लगाया है। उसकी धमकी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। मामला सदर थाना क्षेत्र के नामनेर के बंधेल कुंज की है। यहां के निवासी मनीष चंद सविता (30) चांदी कारीगर थे। उनके भाई रोहित ने बताया कि उनके पिता सुरेश चंद चौकीदारी करते हैं। दिवाली पर भाई की पत्नी पूनम बच्चों को लेकर मायके गई थी। सोमवार की दोपहर तीन मां बेबी देवी मनकामेश्वर मंदिर गई थीं। पिता बगल के कमरे में सो रहे थे। घर पर कोई नहीं था। मां जब 5.00 बजे मंदिर से वापस आईं तो उन्होंने मनीष को पंखे से फंदे पर लटका देखा। इस पर उन्होंने शोर मचाया। पड़ोसी मौके पर आ गए, मगर तब तक उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

**जल जीवन मिशन की ओर से जल ज्ञान यात्रा का हुआ आयोजन**  
स्कूली बच्चों को दिखाए गए डब्ल्यूटीपी प्लांट, पानी टंकियां, पम्प हाउस और क्लोरिनेशन रूम छात्रों ने देखी गांव-गांव में शुद्ध पेयजल वाटर सप्लाई की प्रक्रिया

**आगरा।** यमुना नदी के तट पर बसी ताज नगरी के गांव-गांव में जल जीवन मिशन की मुहिम से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। कुछ ऐसा ही बदला हुआ नजारा बुधवार को आयोजित जल ज्ञान यात्रा में सरकारी स्कूल के बच्चों ने करीब से देखा। बच्चों ने जाना कि पेयजल की समस्या से जूझने वाले ग्रामीण आज जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से कितना लाभ ले पा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने पेयजल परियोजनाओं में बने डब्ल्यूटीपी, पानी टंकी, पम्प हाउस, क्लोरिनेशन रूम को देखा और उसकी उपयोगिता जानी। महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट से पानी की गुणवत्ता जांच कर बच्चों को दिखाई। गांव-गांव में पानी की सप्लाई प्रक्रिया भी छात्रों को पहली बार देखने को मिली। नमामि गोंए ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अनुठी पहल जल ज्ञान यात्रा का आयोजन ताज नगरी में किया गया। जल निगम (ग्रामीण) के सहायक अभियंता मोहित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूली बच्चों को सबसे पहले जल निगम (ग्रामीण) की लैब का भ्रमण कराया गया और जल जांच की उपयोगिता बताई गई। प्रशिक्षित महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जांच बच्चों को करके दिखाई। जल शोधन प्लांट सिकन्दरा में स्कूली बच्चों ने जल शोधन के फायदे जाने और हर घर जल योजना से गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही वाटर सप्लाई प्रक्रिया को देखा। छात्रों को जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से ग्रामीणों को मिल रहे लाभ की जानकारी जागरूकता कार्यक्रमों की मदद से दी गई। जल संचयन और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों ने आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।

### लोक अदालत नो कोहोगी आयोजित

**आगरा।** प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, जिला न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में आज अपर जिला जज/ नोडल अधिकारी अमर जीत सिंह राष्ट्रीय लोक अदालत, डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/ सचिव, जिला सेवा प्राधिकरण के द्वारा 9 दिसम्बर 2023 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर एवं तहसील परिसरों में आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एडीएम एफआर/राष्ट्रीय लोक अदालत, एसीपी ट्रेफिक, डीसीपी/प्रभारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक प्रबंधकों के साथ दीवानी न्यायालय परिसर में अपर जिला जज/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, के द्वारा की गई। बैठक में बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक नियम अनुसार आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्रदान करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार में भी सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही पुलिस विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समस्त नोटिस/समन की तमिल पर विशेष रूचि दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना समय से मिल सके। इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के द्वारा कहा गया कि 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

### जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित

**आगरा।** युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा जनपद स्तरीय युवा उत्सव एव/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यूप हॉस्टल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ परियोजना निदेशक रंजू माँ कुमारी ने सरस्वती के चित्र पर माल्यापण एवं दीप प्रज्वलित ने किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत प्रभारी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी विभागाध्यक्ष दल अधिकारी मंजीत सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम का समापन व पुरस्कार जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू सिंह ने किया इनका भी स्वागत प्रभारी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी व सहायक युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल एवं सुश्री हिमांशी अग्रवाल क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी द्वारा बैज लगाकर किया गया। कार्यक्रम समापन पर मुख्य अतिथि डा भदौरिया ने विजित प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना की साथ ही मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए शुभाशीष दी।

## शहरी निकायों में अतिक्रमण, हटाने, दुकानों के आगे दुकानदारों की हदबंदी करने तथा अभियान चलाकर होर्डिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश: रितु महेश्वरी

### संवाददाता

**आगरा।** मंडलायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व वादों एवं मण्डलीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर करेतर की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने वाणिज्य कर की समीक्षा की जिसमें बताया गया कि माह के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली 44.79 प्रतिशत रही जिसमें आगरा 43.86, फिरोजाबाद 43.30, मथुरा 50.76, मैनपुरी 46.08 प्रतिशत है, साथ ही रैंकिंग में सुधार के चलते 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है प्रदेश में मंडल 20 वें स्थान पर है, तथा 729 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मंडलायुक्त ने चिह्नित कर अधिकाधिक व्यापारियों के पंजीकरण करने तथा लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर जिम्मेदारी तय करने के जोएसटी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्टॉप एवं



रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की गई जिसमें माह के लक्ष्य के सापेक्ष 46.27 प्रतिशत उपलब्धि है जिसमें आगरा 40.77, फिरोजाबाद 44.62, मथुरा 59.32, मैनपुरी 33.58 प्रतिशत रही, आवर्क विभाग की समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष मंडलीय उपलब्धि 40.31 प्रतिशत है, परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष मंडलीय उपलब्धि 43.21 प्रतिशत है तथा मंडल की रैंक 18

वें स्थान से बढ़कर 04 वें स्थान पर है। मैनपुरी का द्वितीय मथुरा का तृतीय है, आगरा ने भी वृद्धि की है तथा दीपावली पर 10600 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। बैठक में नगर निकाय की समीक्षा की गई तथा बिना सत्यापन के वसूली के नोटिस देने की शिकायत पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, बैठक में राजस्व वसूली तथा वादों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों के लंबित वाद, और निस्तारित वादों की स्थिति पर

नाराजगी व्यक्त की। जिसमें फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों को लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा तथा मैनपुरी के तहसीलदारों तथा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील की खराब स्थिति पर सो कांज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने धारा 34, 33, 24, 80, 98 और 116 कुर्रा बंटवारा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वादों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण कराया जाए। लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए। अन्यथा जिलाधिकारी अपने स्तर से लापरवाहों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही अमल में लाएं। घरेनी और रियल टाइम खतौनी के भी लंबित वादों को निर्धारित समय में निस्तारण के निर्देश दिए, बैठक में अमीनों को वसूली के लक्ष्य देने तथा प्रगति से

अवगत कराने को निर्देशित किया। बैठक में धान खरीद केंद्रों को संचालित कर अधिकाधिक खरीद सुनिश्चित करने सभी जनपदों में लैंड बैंक बनाए जाने हेतु बड़े भूखंड चिह्नित करने पर विशेष प्रयास करने के कड़े निर्देश दिए, शहरी निकायों में अतिक्रमण, हटाने, दुकानों के आगे दुकानदारों की हदबंदी करने तथा इस पर अभियान चलाकर होर्डिंग तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल में मथुरा तथा मैनपुरी में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, मैनपुरी के जिलाधिकारी ने बताया कि 03 मामलों में कार्यवाही की गई है तथा एक लाख का जुर्माना वसूला गया है, मंडलायुक्त द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने तथा तत्काल पेनाल्टी बसूलने को निर्देशित किया।

## नहरों की पटरियों से विद्युत विभाग तत्काल पोल हटाए मंजू जिले की नहरों की पटरियों का होगा शौंदर्यीकरण, पेड़ भी लगवगे

### संवाददाता

**आगरा।** जिला पंचायत अध्यक्ष, की अध्यक्षता में सिंचाई बन्धु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सिंचाई विभाग, अपर जिला कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, नलकूप विभाग, लघु सिंचाई विभाग, के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मांट, फिरोजाबाद, जल निगम एव वन विभाग, के अधिकारी अनुपस्थित रहे, इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू सिंह भदौरिया द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, मुख्य विकास अधिकारी, को वेतन रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रजवाहा को आदर्श नहर के नाम से स्थापित किया जाना है, उस पर विद्युत खंभों की वजह से उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इस पर



विद्युत खंभों को हटवाने को निर्देशित किया। उन्होंने नहरों पर बन रही पुल-पुलिया, अन्य निर्माणधीन कार्यों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जायें।

नहरों को आदर्श नहर के रूप में विकसित करने हेतु उचित कार्यवाही की जायें। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि लाइन लगाने से पूर्व, उस विभाग की जमीन हो उस से एनओसी ली जाये तथा रजवाहा पर लगे विद्युत पोलों को हटवाया जाये। सिंचाई खण्ड हाथरस से उपस्थित सहायक अभियन्ता को भी निर्देश दिये गये कि जनपद में पड़ने वाली उनके खण्ड की नहरों की सफाई के समय निकाली गयी सिल्ट का सही डिस्पोजल कराया जायें। जहां-जहां नहरों पर अतिक्रमण है वहां से तुरन्त हटवाया जाये तथा फोटोग्राफ्स भी बनाकर दिखाई जायें। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद में कृषि से सम्बन्धित कार्य विशेष रूप से कराये जाये तथा किसानों को खाद बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देश दिये

## पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली पत्नी के साथ किया ताज महल का दीदार



### संवाददाता

**आगरा।** पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने पत्नी सामिया आरजू के साथ ताज महल देखा। आईसीसी विश्व कप 2023 में अपनी टीम का अभियासन समाप्त होने के बाद पाकिस्तान तेज गेंदबाज हसन अली

भारत में ही रुक गए। उनकी पत्नी सामिया आरजू भारत से ही हैं और इस जोड़े ने परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते का फैसला किया। हसन अली और सामिया ने ताजमहल का दौरा किया है। वह पत्नी सामिया के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। यहां उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा और ताज के साये में पत्नी के साथ कई रोमांटिक फोटोज भी खिंचाए। इसके बाद पाकिस्तान लौट जाएगा। उन्हें आस्ट्रेलिया में आगामी तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम में नामित किया गया है

### छलेसर कट्टी घर में काटी जा रहे है दुधारू पशु

**आगरा।** छलेसर कट्टी घर में दुधारू और भैंसों के बच्चों को घड़घड़ काटा जा रहा है जबकि पशु काटने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है लेकिन कट्टी के समय कोई डक्टर नहीं रहता है जबकि डक्टर स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रति पशु हजार रूपए वसूल कर फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। इस प्रकरण का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। नगर निगम द्वारा संचालित सिलेंडर हाउस में जारी है अवैध रूप से भैंस के छोटे-छोटे बच्चे काटना नगर निगम सहित प्रशासन का इस तर्फ ध्यान तक नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे बच्चों को काटना है प्रतिबंध कर रखा है नगर निगम द्वारा संचालित सिलेंडर हाउस के अंदर छोटे-छोटे भैंस के बच्चे पशु कटाने का वीडियो वायरल 22 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे हुआ है इस पर हिंदू महासभा समर्थकों ने नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को सौंपा है ।

## दिनदहाड़े गन प्लाइंट पर ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट

## बाइक सवार बदमाश लाखों के जेवरत लेकर फरार. भागते समय की फायरिंग

### संवाददाता

**आगरा।** मंडल के मथुरा जिले में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के नरसीपुरम कॉलोनी स्थित संजीव ज्वेलर्स एंड संस के यहां बाइक सवार बदमाशों ने गन प्लाइंट पर ज्वेलरी लूटपाट की है। भागते समय बदमाशों ने फायरिंग भी की और दहशत फैला दी। घटना से क्षेत्र में अफरातफरी है और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। नरसीपुरम कॉलोनी में संजीव ज्वेलर्स एंड संस नाम से दुकान है। बताया जाता है कि



आज दोपहर को बाइक पर तीन हथियारबंद बदमाश दुकान में घुस गए। बदमाशों ने दुकानदार को गन प्लाइंट पर ले लिया और इसके बाद सोने चांदी के जेवरत भरने लगे। जेवरत भरने के बाद बदमाश वहां से भागने लगे। भागते समय दुकानदार ने जब विरोध किया तो

बदमाशों ने भीड़ को निशाना बनाकर सीधे फायर झोंक दिया। गोली चलने से बाजार में दहशत फैल गई। पीड़ित दुकानदार के अनुसार बदमाश दुकान से ढाई लाख रुपये कैश, 400 ग्राम सोने के गहने और ढाई किलो चांदी के गहने लूट ले गए हैं। सूचना पर एमपी सिटी एमपी सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए एसओजी, स्वाट, थाना सदर बाजार और रिफाइनी थाना प्रभारी समेत चार टीम गठित की गई है।

## निर्माणधीन सड़को की जांच तीस नवंबर तक कराए: कमिश्नर गाय वंशजों को गरु शालाओं में भेजे, मैनपुरी में विद्युत आपूर्ति ठीक कराए डीएम

### संवाददाता

**आगरा।** कमिश्नर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा की गई जिसमें विद्युत आपूर्ति को लेकर मंडल में मैनपुरी जिले की रैंकिंग खराब मिली है। इस पर मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने मैनपुरी जिलाधिकारी को विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। साथ ही लटके हुए बेतरतीब विद्युत तारों को गंभीरता से लेते हुए 15 से 20 दिन में ठीक कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि लटके हुए तारों के कारण कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ग्राम्य विकास के अंतर्गत भवन निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की



समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने चेतावनी दी कि मंडल में कहीं भी सड़क दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस पहुंचने में देरी से पहुंचे पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी नहीं होनी चाहिए। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के खाते में समय से पैसे पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। अस्पतालों में चिकित्सक-नर्स एवं

स्टाफ ड्यूटी के अनुसार हर समय उपलब्ध हो। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सहित सभी मशीनों सत्रिय हों। सीएमओ को निर्देश दिए कि अगर निरीक्षण में किसी भी अस्पताल की व्यवस्था या हालात ठीक नहीं मिले तो सीएसएम के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल

योजना में प्रदेश में खराब रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए। पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा आदर्श गांव बनाने पर ध्यान दिया जाए। निर्वाचित गोवंश सरंक्षण पर मंडल के चारों जनपदों में जितनी भी संरक्षित गौशालाएं बनानी है, 30 नवंबर से पहले उन सभी का निर्माण हो जाना चाहिए। आबारा गोवंश को इन गौशाला में पहुंचाया जाए। गोवंश को पकड़ने के लिए कैटल कैचर वाहन लगातार चलते रहें। मुख्य विकास अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गौशाला संचालन में लापरवाही बर्दाश नहीं

की जाएगी। जो भी अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही करें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पीडब्ल्यूडी द्वारा नई सड़क एवं नए सेतु निर्माण की धीमी प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जनपदों में जितनी भी नई सड़कें बनाई गई हैं और सड़क रिपेयर की गयी है, सभी की जांच कराई जाए साथ ही निर्माण कार्य की जितनी भी एंजॉसिया हैं, निर्धारित लक्ष्य और समय के अनुसार काम पूरा नहीं किया गया है तो इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाए। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि जनपदों को उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी मंडलीय और जिला स्तर के अधिकारी मिलजुलकर काम करें। क्वालिटी

एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र और मॉडल स्कूल पर ध्यान दिया जाए। ओडीओपी के तहत प्रत्येक जिले में एक अच्छे उत्पाद का चयन कर प्रचार-प्रसार किया जाए। मंडल का भी एक संयुक्त उत्पाद तैयार किया जाए। स्वयं सहायता समूहों को ओडीओपी से जोड़ा जाए। ईको टूरिज्म विकसित करने और स्पोर्ट्स इंधा को लेकर नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टेटिडियम बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए। इसके अलावा लैंड बैंक और मॉडल विलेज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सीडीओ और डीपीआरओ को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई बनाये रखने के निर्देश दिए। बैठक में जनपद के जिलाधिकारियों सहित सभी मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।

## ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार एवं विकास प्राधिकरण अभियंताओं की टीम ने निर्माण संचालित विवाह घर पेट्रोल पंप व गैस गोदाम आदि का किया निरीक्षण

संवाददाता

उरई जालौन। विकास प्राधिकरण उरई सचिव/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार एवं विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की टीम प्रमोद पटेरिया एवं विजय कुमार द्वारा आज जालौन कोच बाईपास पर हो रहे निर्माण एवं संचालित विवाह घर एवं पेट्रोल पंप गैस गोदाम आदि का निरीक्षण किया एवं स्वीकृत मानचित्र चेक किए गए जिसमें -गोमती कटिहार पत्नी जगदीश कटिहार;लाला सिंह पुत्र प्रभु दयाल,भगवान दास राठौर पुत्र पीएल राठौर-राधा शर्मा पत्नी लखन लाल शर्मा;कृष्ण कुमार पत्नी प्रदीप राठौर;मनोज राठौर पुत्र रतनलाल राठौर;नैसी पत्नी रोहित यज्ञ;अविनाश उपाध्याय पुत्र ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय पेट्रोल पंप एवं गैस गोदाम;सल्येंद्र



सिंह पुत्र नाथू सिंह;मयूर गार्डन विवाह घर राजाराम गुर्जर; हरी गार्डन सुरेंद्र कुमार पांडे;-साइ पैलेस विवाह घर आकांक्षा गुप्ता पत्नी अतुल गुप्ता;मधुबन विला विवाह घर दिवाकर विवेक कुमार गुप्ता पुत्र नाथुराम गुप्ता;संतेंद्र सिंह;मीनू सोनी पत्नी विनोद कुमार सोनी आदि लोगों के मानचित्र चेक किए गए एवं बिना

मानचित्र के भवनों एवं संचालित विवाह घर को प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की गई है उक्त अभियान में अब प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे निर्माण का सघनता से चेक किया जाएगा तथा बिना मानचित्र निर्माण पर करवाई की जाएगी उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।

## 27 अगस्त से 108 दिवसीय शाकाहार-सदाचार जनजागरण यात्रा

संवाददाता

उसावाँ । अपनी भविष्यवाणियों व आध्यात्मिक संदेशों के लिये देश, दुनियाँ में विख्यात परम सन्त बाबा जयगुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी एवं जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज 27 अगस्त से 108 दिवसीय शाकाहार-सदाचार, मद्यनिषेध, आध्यात्मिक-वैचारिक जनजागरण यात्रा के साथ विभिन्न जिलों में मानव प्रेम, आपसी सौहार्द तथा आत्मकल्याण का संदेश सुनाते हुये कल सायंकाल यात्रा के 87वें पड़ाव पर उदैया नगला रोड उसावाँ के मैदान पर पधारें। बड़ी संख्या में स्थानीय भाईयों, बहनों, बच्चों व संगत सोनभद्र के प्रेमियों ने कलशों, फूल मालाओं, पुष्प वर्षा तथा गाजे-बाजे के साथ यात्रा का स्वागत किया। बुधवार को 12 बजे से सतसंग समारोह का शुभारंभ हुआ। अपने सतसंग सम्बोधन में पूज्य पंकज जी महाराज ने कहा कि चौरीसी लाख योनियों में यह मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। इस्लाम में भी इसे



अशरफुल मखलूकात कहा गया। इसी शरीर में खुदा की रूह व ईश्वर की अंश आत्मा दोनों आंखों के बीच बैठी है। उसी में एक तीसरी आंख यानि नुकताये सफेदा तथा तीसरा कान है। जिसके द्वारा उसका जलवा देखा जा सकता है और प्रभु की देववाणी या खुदा की आयतें सुनी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिये किसी पूरे गुरु यानि मुशिंद, कामिल की तलाश करके उनसे जिस्मानी इबादत का रास्ता लेना होगा। इसी को सुरुत शब्द योग मार्ग कहते हैं। जीते जी खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन होता है, मरने के बाद शरीर से खुदा के फरिश्ते रूह को लेकर धर्मराज की कचहरी यानि इन्साफ के तख्त

पर पेश कर देते हैं। जहां इसके नेक व बंद ऐमालों, कर्मों का हिसाब हो जाता है और इसी रूह, जीवात्मा को लाख-लाख वर्षों तक दोजखों में, नकों में भारी यातनायें सहनी पड़ती हैं। आला फकीर व पूरे गुरु जब साधना करके ऊपर के मण्डलों में जाते हैं तो वहां का नजारा देखते हैं कि यही रूहें रोती छिछती हैं कोई मदद करने वाला नहीं है। दुनियाँ में तो अनेकों साथी आप बना लेते हैं लेकिन उस आखिर दरजे का साथी केवल सन्त महात्मा, फकीर ही होते हैं जो जीव को नकों व दोजखों से बचा सकते हैं। हमारे गुरु महाराज परम सन्त बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने समाज के सभी जन मानस को आत्म कल्याण के लिये सुरुत शब्द योग (नाम योग) का भेद बताकर इसी जीवन में ऊपर की मण्डलों की सैर करा दी थी और कहा था कि जब आप जिस्मानी मस्जिद में बैठकर खुदा की सच्ची इबादत करके अपनी रूह को जगा लेंगे तो भूत, भविष्य, वर्तमान का बोध

आपको भी हो जायेगा। उन्होंने उस समय हम सबको चेताते हुये कहा था कि 'दिल में हमारे दरद है तुम्हारा, सुने तो जाओ सन्देश हमारा। नकों, दोजखों से बचना चाहते हो तो किसी भी जीव (पशु-पक्षी) को सताओ नहीं। फकीरों ने कहा है कि मत सताओ गरीब को, वो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुमको जड़ों से खोदेगा। इसलिये हमारी आप सबसे अपील है कि आप सब खोटे, बुरे कर्मों से बचें। किसी भी जीव की हिंसा न करें यानि सब पर रहम करें। शाकाहारी रहें और एक भी कतरा शराब का अपने जिस्म के अन्दर न डालें। वनां कुदरत सख्त सजा देने को तैयार हैं। तरह-तरह की बीमारियों के आने की भी पूर्ण सम्भावना है जिससे जन व धन हानि भी होगी। हम तो अच्छा समाज बनाने के संकल्प के साथ 108 दिनों के लिये निकले हैं। अच्छे समाज के निर्माण के लिये सबका सहयोग चाहते हैं। वर्तमान में देश में बड़ोती हुई हिंसा व अपराध पर चिन्ता व्यक्त करते हुये पंकज जी ने कहा कि इसका मूल कारण शराब आदि मादक पदार्थों का

सेवन है। हमारी प्रार्थना है कि ये देश के युवा ही देश की धरोहर है इन्हें इसके गिरफ्त से बचना समय की मांग है और हमारा आपका कर्तव्य है। आगामी 20 से 24 दिसम्बर तक आगरा-दिल्ली बाई पास स्थित जयगुरुदेव मंदिर मथुरा में पूज्याद स्वामी धूरलाल जी महाराज 'दादा गुरुजी' का 75वां वार्षिक भण्डारा सतसंग मेला आयोजित होगा। आप से अपील है कि समय निकाल कर पावन पर्व पर जयगुरुदेव आश्रम मथुरा पधारें। दया, दुआ, आशीर्वाद प्राप्त करें। पुलिस प्रशासन का सुख्यक व शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग रहा। इस अवसर पर बदायूं संगत के जिलाध्यक्ष उपदेश सिंह, ब्लाक अध्यक्ष महिपाल सिंह, भू स्वामी विष्णु दयाल यादव, प्रधान वीरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य विजय सिंह, राम शंकर शाय्य, सुभाष चन्द, देव सिंह, चोब सिंह, प्रमोद यादव तथा जिलाध्यक्ष अवधू सिंह, कामता गुप्ता, राम जियावन पासवान, जमींदार यादव आदि के साथ संस्था के कई पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

## एक नज़र

### ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने हलाल टैग को बताया गैर शरई

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट दे देने से गैर शरई काम शरई नहीं हो सकता है। जो संस्थायें इस तरह का खेल कर रही हैं तो वो मजहब की आड़ में मुसलमानों को धोखा दे रही हैं।



आजकल हलाल सर्टिफिकेट को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। इसे लेकर लोग भी असमंजस में हैं। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, वहीं इस मुद्दे को लेकर देशभर से मुसलमान सवाल कर रहे हैं। शरीयत इस बारे में क्या कहती है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलीवी ने बृहस्पतिवार को बनावली किया। मौलाना कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हाराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हाराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो संस्थायें जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट देकर किसी चीज को हलाल कर देते हैं तो वो दोहरी गुनाहवार हैं। एक तो उन्होंने गैर शरई काम को किया कि कागज का टुकड़ा पकड़कर लिखकर दे दिया की ये चीज हलाल है। और दूसरा जुर्म ये कि अगर सर्टिफिकेट न दिया होता तो इंसान खुद अपने तौर पर जांच पड़ताल करके हलाल व हाराम होने का पता लगा लेता। इस तरह अपने और अपने परिवार को संतुष्ट कर देता। ऐसा न करके सर्टिफिकेट देकर एक तरह से लोगों को धोखे में डाल दिया।

व्या है हलाल

मौलाना ने कहा कि शरई तरीका है कि मांसाहारी चीजों जानवरों की जो चार रों होती हैं, उनमें से कम से कम तीन रों %बिस्मिल्लाह अल्लहु अकरबर% कहकर कोई मुसलमान उसे जबह (गला काटकर प्राण लेने की क्रिया) करें। उसके साथ ही एक पलभर के लिए मुसलमान की नजर से ओझल न हो, तो ये हलाल होगा। अगर इसके विपरीत कोई कार्य होगा तो वो गैर शरई होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट दे देने से गैर शरई काम शरई नहीं हो सकता है। जो संस्थायें इस तरह का खेल कर रही हैं तो वो मजहब की आड़ में मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। ये ऐसा कारोबार है जो अल्लह का नाम लेकर ही शुरू होता है और दुनिया में कोई दूसरा कारोबार ऐसा नहीं है जो अल्लह का नाम लेकर शुरू होता हो।

सिर्फ मीट उत्पाद पर लग सकता है ये टैग

मौलाना ने कहा कि हलाल टैग सिर्फ मीट पर ही लगाया जा सकता है, अगर अन्य किसी दूसरे उत्पाद पर इसे लगाया जा रहा है तो ये एक अच्छे शब्द का दुरुपयोग है। इस्लामी शरीयत में हलाल शब्द सिर्फ जानवरों के मांस के संबंध में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अन्य चीजों का इस्तेमाल जानवर या नाजान्य हो सकता है, लेकिन उन पर हलाल का टैग नहीं लगाया जाना चाहिए। मौलाना ने आगे कहा कि कुछ संस्थाओं ने हलाल टैग की मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। हर चीज पर हलाल टैग लगाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट इशू करके कमाई का एक माध्यम बना रखा था। हद यहां तक हो गई कि सब्जियों, फलों, बिस्किट आदि खाने-पीने की चीजों पर भी हलाल टैग लगाया जाने लगा। मुस्लिम संस्थाओं को इस तरह की भ्रमित और गुमराह करने वाली चीजों से बचना चाहिए। मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि मीट की दुकानों के लाइसेंस पहले से ही प्रशासन ने जारी किए हैं, इसलिए जांच टीमों उनको परेशान न करें। मौलाना ने सरकार से मांग की है इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक हलाल बोर्ड का गठन करें, जिसमें ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, जो शरई तौर पर काम करने में सक्षम हों।

### लैब टेक्नीशियन ने फंदा लगाकर दी जान, मरने से पहले पत्नी को किया वीडियो कॉल

बरेली। पीलीभीत में पत्नी के साथ ससुराल में रह रहे लैब टेक्नीशियन ने ससुरालियों की गैर मौजूदगी में फंदा लगाकर जान दे दी। बरेली की सनराइज कॉलोनी निवासी हरिओम सक्सेना (40) का विवाह पीलीभीत की एकता नगर कॉलोनी निवासी आकृति सक्सेना से नौ वर्ष पूर्व हुआ था। हरिओम बरेली की भोजीपुरा पीएचसी में लैब टेक्नीशियन थे, जबकि पत्नी आकृति पीलीभीत के पीटा कला में स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ हैं। आकृति अपनी मां प्रबोदनी देवी के साथ रहती हैं। बेटा ईशान भी शहर के एक स्कूल में पढ़ता है। हरिओम का बरेली व अपनी ससुराल में आना-जाना लगा रहता था। तीन दिन पूर्व बेटे ईशान के स्कूल में वार्षिकोत्सव था। उसमें शामिल होने के लिए हरिओम यहां आए थे। तबीयत खराब होने की वजह से वह बरेली नहीं गए थे। बुधवार सुबह पत्नी आकृति ड्यूटी पर चली गईं। उधर, हरिओम अपना टेस्ट कराने शहर की एक निजी लैब गए थे। वहां वहां से लौटकर घर आए तो उनकी सास कुछ काम से बैंक चली गईं। सास बैंक से लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसी की छत से अपनी छत पर पहुंचकर जीने का दरवाजा तोड़कर वह नीचे आईं। वहां हरिओम का शव पंखे से लटका था।

पत्नी पर आरोप लगाते हुए की मारपीट

हरिओम बुधवार को अपनी बहन के साथ किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुड़ली दिखाए जाने वाले थे। बुधवार को भाई की ससुराल पहुंचते ही हरिओम की बहन ने अपनी भाभी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप लगाया कि पत्नी व उसके परिवारले हरिओम पर पीलीभीत में ससुराल में रहने का दबाव बना रहे थे।

आत्महत्या से पहले पत्नी को किया वीडियो कॉल

बताया जाता है कि हरिओम और उनकी पत्नी आकृति के बीच मंगलवार शाम कहासुनी हो गई थी।

## घी कारोबारी पर बड़ी छापेमारी



संवाददाता

बदायूं। अभिसूचना के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य सी एल यादव के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा अर्जुन नगर दातागंज बदायूं स्थित मैसस शुभ ट्रेडर्स प्रोपराइटर दिनेश चंद्र गुप्ता पुत्र गोरकर लाल गुप्ता निवासी अर्जुन नगर दातागंज बदायूं के घी निर्माण प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण। उपरंत घी में मिलावट का संदेह होने पर घी के दो नमूने वास्ते जांच हेतु संग्रहित किए गए तथा शेष 670 टोन घी प्रत्येक 15

किलोग्राम को नियमानुसार सीज कर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया जिसका अनुमानित मूल्य 4690000 है इस प्रकार कुल दो नमूने जांच हेतु संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरंत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी टीम में सहायक आयुक्त वास्ते सी एल यादव मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी के शुक्ल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण भूपेंद्र सिंह एवं एतीस कुमार मौजूद रहे

## गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना

संवाददाता

उरई जालौन। जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी ने वर्ष 2023-24 के लिये गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में बताया है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एकीकरण अनुभाग जितेंद्र कुमार राय शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिये गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त करने हेतु निम्न अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं- जो भारत का मूल नागरिक हो, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो तथा 'गुरु गोविंद सिंह

राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना' के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत न किया गया हो। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति जिसमें मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्ण समर्पित रहे हो, को सार्वजनिक जितेंद्र कुमार राय शासकीय पत्र के माध्यम से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस (05 जनवरी) पर गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किये जाने व एक लाख रुपये का नागद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिये जाने को व्यवस्था है। पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2023 तक चार प्रतिष्ठानों में जिला विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन जालौन स्थान उरई में जमा करे जिससे जांचोपरान्त निर्धारित समय पर शासन को प्रेषित किया जा सके।

## आगामी 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संवाददाता

उरई जालौन। मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लक्ष्मू सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य एवं भारत दूर संचार निगम के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक जिला दीवानी न्यायालय परिसर में सम्पन्न हुयी जिसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेंद्र कुमार रावत ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान



में आगामी दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं बाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें राजस्व विधि, स्टाम्प अधि0, जल संस्थान, विद्युत, श्रम, मोटर वाहन अधि0, पुलिस चालानी, शमनीय अपराधिक वाद, प्रकीर्ण वाद, वन अधि0, जिला पंचायत व नगर पालिका से सम्बन्धित परिवाद / सिविल वाद आदि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों / मामलों को नियत तथा निस्तारित किया जाना है। इस सम्बन्ध

में समस्त विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पर उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ0आर0) संजय कुमार से अपेक्षा की कि वे विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को चिन्हित करके अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करावें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रतिनिधि पुलिस क्षेत्राधिकारी ड0 देवेन्द्र कुमार से कहा कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निगमित करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निगमित सम्मन / नोटिसों का तामीला श्त् प्रतिशत कराना

सुनिश्चित करें, क्यों कि यह तथ्य व ज्ञान में आया है कि कतिपय थानों से सम्मन / नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है, इस सम्बन्ध में हिलाई न बरती जाये। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ड0 एस0डी0 चौधरी से अपेक्षा की कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन का प्रचार करायें जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रतः शीघ्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय और जे0ए0ओ0 टेलीफोन ए0के0 सिंह से ऐसे मामलों को चिन्हित करने व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा जो लोकअदालत में निस्तारित करायें जा सकें।

## राष्ट्रीय एससी एसटी हब कार्यालय का किया उद्घाटन

संवाददाता

उरई जालौन। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, एमएसएमई, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने जनपद जालौन में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय का उद्घाटन राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ भी शामिल हुईं। उद्घाटन समारोह के बाद राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में किया गया जिसमें 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव ने सीपीएसई, बैंकों, उद्योग संघों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा इंटरैक्टिव सत्रों की सुविधा प्रदान की, जिससे सीपीएसई के खरीद नीति और उनकी आवश्यकताओं को समझने में क्षेत्र के एससी-एसटी उद्यमियों को जोड़ने और सहायता करने में मदद मिली। जनपद में यह नया एनएसएसएच कार्यालय (एनएसएसएचओ)



आसपास के क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए जागरूकता इकट्ठा करने और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। एनएसएसएचओ एससी-एसटी उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण, जीईएम नामांकन, निविदा भागीदारी और क्रैडिट सुविधा के लिए सहायता भी प्रदान करेगा।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि इस क्षेत्र में नए कार्यालय के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रतिभागियों से सरकारी योजना से अधिकतम लाभ उठाने और उद्यमिता को एक पेशे के रूप में अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने एमएसएमई के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करने और सभी के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने के अपने मंत्रालय के

प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिन्हित करके अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करावें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रतिनिधि पुलिस क्षेत्राधिकारी ड0 देवेन्द्र कुमार से कहा कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निगमित करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निगमित सम्मन / नोटिसों का तामीला श्त् प्रतिशत कराना

प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिन्हित करके अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करावें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रतिनिधि पुलिस क्षेत्राधिकारी ड0 देवेन्द्र कुमार से कहा कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निगमित करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निगमित सम्मन / नोटिसों का तामीला श्त् प्रतिशत कराना

## कोच में बच्चों से भरी स्कूली बैन खम्बे से टकराई चालक समेत तीन बच्चों की हालत गंभीर

संवाददाता

कोच जालौन। बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां स्कूली बच्चों से भरी एक मैजिक वैन बिजली के 11000 के पोल से टकरा गई, इस हादसे में चालक और 15 से अधिक स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, घटना को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर तीन बच्चों और चालक को हायर सेंटर झॉन्सी रेफर कर दिया। घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र के 132 बिजली पावर हाउस के पास की है। बताया गया है कि ग्राम फुलैला से एक मैजिक वैन सूरज ज्ञान मॉडर्न



रहा चालक आशीष अपना संतुलन खो बैठा और बिजली के 11000 के पोल से टकरा गई। इस घटना में वैन में सवार 15 स्कूली बच्चे जिसमें फुलैला ग्राम के रहने क्षितिज पुत्र अनिल, कार्तिक पुत्र राहुल

कुमार, रितिक पुत्र चंद्रपाल, विकी पुत्र रविंद्र, सौम्या पुत्री अनिल कुमार, सुर्यश पुत्र पुष्येंद्र, सोनू पुत्र अजीज, अशुल कुमार पुत्र यशपाल, शिवम पुत्र गंगाराम तथा चालक आशीष पुत्र मोहर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये। इस हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से कोंच के सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने विकी, सौम्या, आशीष की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झॉन्सी के लिए रेफर कर दिया, वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं घायल बच्चों का कहना है कि चालक आशीष कान में एयर फोन लगाए हुए था और वह गाड़ी भी तेज चल रहा था, कई बार चालक को धीमी गाड़ी चलाने के लिए कहा, मगर चालक ने रफ़ता कम नहीं की, जिस कारण यह हादसा हुआ। वहां घटना की सूचना पाकर जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडेय जालौन एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ईराज राजा जालौन सी एच सी कोच पहुंचे बच्चों एवं परिजनों से मिलकर हाल-चाल जाना व घायलों को बेहतर उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया

## रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला युवक का शव

सफदरगंज (बाराबंकी)। थाना क्षेत्र में खेत के लिए निकले युवक का क्षत-विक्षत शव बुधवार की सुबह मुस्कौनगर गांव के निकट रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफदरगंज कस्बा निवासी राम सजीवन कनौजिया (35) मंगलवार की शाम को घर से खेतों की ओर निकला था। देर रात तक घर वापस न आने पर परिजनों ने सजीवन की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बुधवार की सुबह लखनऊ अयोध्या रेलमार्ग पर ग्राम मुस्कौनगर गांव के समीप रेलवे लाइन के पास उसका क्षत-विक्षत शव मिला। इसकी सूचना पाकर रते बिलखते मौके पर पहुंची मां बसंती ने उसकी पहचान की। ट्रेन की चपेट में आकर मौत होने की बात कही जा रही है। थानाध्यक्ष बुजेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

